

## PRODUCT CARE



Hand wash with mild detergent and water below 30°C without wringing.



Dry in shade on a flat surface.



Do not dry-clean.



Do not Iron.



Do not bleach.



Close hook loop fasteners before washing.

EC REP

MT Promedt Consulting GmbH  
Altenhofstrasse 80  
D-66386 St. Ingbert  
Germany  
tel.: +49 (0) 6894 581020  
fax: +49 (0) 6894 581021  
e-mail: info@mt-procons.com  
www.mt-procons.com

### Symbol Explanation :



Batch code



Manufacturing date



Manufacturer



Catalogue number

**Tynor Orthotics Pvt. Ltd.**

169-170, Sec 82, Ind. Area, JLPL, Mohali -160 055), (Pb) India  
e-mail: marketing@tynorindia.com • www.tynorindia.com  
Customer Care : 0091-172-5288111

ISO 9001 | CRISIL | W.H.O. G.M.P. | ISO 13485 | CE | US FDA registered

[www.tynorindia.com](http://www.tynorindia.com)

**Pouch Arm Sling (Urbane)**

पाउच आर्म स्लिंग (अरबेन)

*Cabestrillo Tipo Sling (Urbane)*

*Pochette écharpe de bras (Urbane)*

(أوربان) الجَزَاب حَامِل الذراع

REF C 21



UIM-C 21-18-1

USER MANUAL

## Pouch Arm Sling (Urbane)

English

### INTENDED USE :

**Pouch Arm Sling (Urbane)** is designed for people who want to flaunt a sling like an accessory. It holds, supports and immobilizes the sprained, broken or surgically operated arm in flexion, while it recuperates. A chic, sleek and air ventilated design suits tropical conditions.

### CONSTRUCTION:

Pouch Arm Sling (Urbane) is made out of three-layered PU bonded fabric, each layer imparting to the fabric its unique properties.

- Outer layer with raising provides soft feel and plush looks
- Middle PUF layer imparts cushioning and wrinkle free property.
- Inner layer gives the required strength and non-tear ability

Design ensures that the chest remains uncovered. Highly ventilated system of interconnected holes further improves air circulation and patient comfort. Sling with double adjustment allows proper fitting and positioning of the arm.

P.U shoulder pad takes the entire load of the arm and provides comfort without any strain to the neck. Thumb cradle maintains the thumb in abduction and relieves thumb fatigue

### APPLICATIONS :

- Fractures of humerus, radius, ulna, clavicles, scapula
- Clavicle bone fracture
- Post-surgical or post cast care of the arm
- Sprained or a dislocated shoulder
- Any other condition requiring support or immobilization of the arm

### RECOMMENDATION :

- Use this product under strict guidance of a qualified doctor.

### INSTRUCTIONS: [1]

- Discontinue use and seek guidance of a qualified doctor, in case of
  - Allergy rash or itching
  - Pain increases or persists
- Misuse or improper use of the device can lead to adverse effects and decreased effectiveness.
- Follow instructions mentioned on the box carefully.
- Keep out of reach of children.

## पाउच आर्म स्लिंग (अरबेन)

Hindi

### उपयोग :

पाउच आर्म स्लिंग (अरबेन) उन लोगों के लिए तैयार किया गया है, जो इसे सहायक वस्त्र की तरह पहनना चाहते हैं। यह मोड़ में आए हुए मोच, टूटा हुआ या शल्यचिकित्सा से ऑपरेट किए गए बांह को धामे रखता है, सहारा प्रदान करता है और इसे स्थिर रखता है, जब तक कि यह पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो जाता है। चिक, स्लीक और वातानुकूलित डिजाइन सभी स्थितियों के अनुकूल होता है।

### निर्माण:

पाउच आर्म स्लिंग (अरबेन) तीन-परत वाले PU से बंधे कपड़े से बना होता है, जिसका प्रत्येक परत अपना विशिष्ट गुण प्रदान करता है।

- ऊपर उठा हुआ बाहरी परत नरमी का अनुभव और आकर्षक दृश्य प्रदान करता है
- बीच का PUF परत कुशन और शिकन मुक्त गुण प्रदान करता है।
- अंदरूनी परत वाञ्छित मजबूती और टूट-फूट रोधी क्षमता प्रदान करती है।

डिजाइन यह सुनिश्चित करता है कि छाती ढंकी हुई न हो। परस्पर जुड़े छिद्रों की अत्यधिक वातानुकूलित प्रणाली वायु परिसंचरण प्रदान करती है और रोगी को आराम पहुंचाती है। दोहरे समायोजन के साथ स्लिंग उपयुक्त फिटिंग और हाथ को आराम पहुंचाता है।

P.U शोल्डर पैक बांह के संपूर्ण लोड को अपने ऊपर ले लेता है तथा गर्दन में बिना किसी खिंचाव के आराम पहुंचाता है। थंब क्रेडल अंगूठे को स्वतंत्र रखता है तथा अंगूठे के दर्द से आराम दिलाता है

### अनुप्रयोग :

- ह्यूमेरस, रेडियस, उल्ला, क्लेविकल्स, स्कापुला का फ्रैक्चर
- क्लेविकल बोन का फ्रैक्चर
- बांह का पोस्ट सर्जिकल या पोस्ट कास्ट देखभाल।
- मोच या कंधे की हड्डी में ऐंठन
- बांह को सहारा देना या स्थिर रखने के लिए आवश्यक कोई अन्य स्थिति।

### सलाह:

- एक योग्य चिकित्सक की सलाह पर उपयोग करें।

### निर्देश: [1]

- इन सतिथियों में, उपयोग बंद कर दें और एक योग्य चिकित्सक की सलाह लें:
  - एलर्जी से लाल चक्के या खुजली
  - दर्द बढ़ता है या बना रहता है
- डिवाइस के दुरुपयोग या अनुचित उपयोग से प्रतिकूल प्रभाव और प्रभावशीलता में कमी उत्पन्न हो सकती है।
- बॉक्स पर वर्णित निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें।
- बच्चों की पहुंच से दूर रखें।

## How To Use Cómo Utilizar



## कैसे उपयोग करें Comment utiliser: كيفية الاستخدام


1.



- Place the injured arm in the pouch.
- जिस हाथ पर चोट लगी है उसे पाउच में रखें
- Coloque el brazo lesionado en el cabestrillo.
- Placez le bras blessé dans la pochette

• ضع الذراع المصابة في الجراب

2.



- Close hook/loop fasteners of the pouch. Place the thumb inside the girdle. Close the hook loop fasteners on the Pouch strap.
- पाउच के हूक/लूप फास्टर को बंद कर दें। अंगूठे को गर्डल के भीतर रखें। पाउच स्ट्रैप पर हूक लूप फास्टर को बंद कर दें।
- Cierre los cierres de velcro del cabestrillo. Coloque el pulgar en el interior de la cintura. Cierre los cierres de velcro de la correa del cabestrillo.
- Fermer les fermetures à boucles/crochets de la pochette. Placez le pouce à l'intérieur de la ceinture. Fermez les attaches de la boucle à crochet sur la sangle de poche.

• إغلق سحابات الحلقة / رباط الجراب. ضع الإبهام داخل الحزام  
• إغلق سحابات رباط الحلقة على حزام الجراب.

3.



- Now cross the sling over the shoulder, insert through the rectangular buckle and reverse pull to a comfortable position before fastening it.
- अब स्लिंग को कंधे पर बाँध दें, आयताकार बकल के माध्यम से लगाएँ और इसे बाँधने से पहले आरामदायक स्थिति में लाने के लिए पीछे की ओर खींचें।
- Ahora cruce la eslinga por el hombro; insértela a través de la hebilla rectangular y tire hacia el revés hasta una posición cómoda antes de abrocharla.
- Passez ensuite la bretelle sur l'épaule, insérez à travers la boucle rectangulaire et tirez vers l'arrière dans une position confortable avant de la fixer.

• الآن ضع الحامل على الكتف بشكل متقاطع، وادخله في الإبريم  
المستطيل واسحبه في عكس الاتجاه للوصول لوضع مريح قبل تثبيته.

4.



- Adjust the pad over the neck to a comfortable position by adjusting the sling on the elbow side.
- केहनी की ओर स्लिंग को समायोजित करके पैड को गर्दन पर आरामदायक स्थिति में समायोजित करें।
- Ajuste la almohadilla sobre el cuello en una posición cómoda ajustando la eslinga en el lateral del codo.
- Ajustez le coussin sur le cou dans une position confortable en ajustant la fronde sur le côté du coude.

• اضبط الحشية الصغيرة فوق الرقبة في موقف مريح عن طريق  
ضبط الحامل على جانب المرفق.